

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापा पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ पन्ने हैं यह मापी पुस्त श्री. अमरुल्ल  
सहायक अधियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अवर प्रमण्डल 2/जुलूस को निर्गत  
किया जाता है।

कार्यपालक अधिकृत  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमण्डल, अद्वनी  
अमरुल्ल

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 2711

Name of Officer \_\_\_\_\_

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

1ST On A/c Bill

1

Name of Work—  
Situation of Work—  
Agency by which work is executed—  
Date of Measurement—  
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
name of work:- construction				
of work from 40-20 manguni				
uttari ward no- 10				onukya
path to Harinagar				road
under (ward Bank)				
Agency:- Jihuli Construction-				
private limited				
Date of start:- 23-02-2022				
Date of completion:- 22-02-2023				
Agreement no - 82530/2021-22				
(Record of measurement) 15-3-22				
item no-(1) :- providing				
fixing setting out pillar of field				
$1.00 \times 4.00 = 4 \text{ nos}$				
Total = 4 nos				
item no-(2) :- cleaning				
scrubbing of vegetation of field				
$6 \times 30 \times 3.50 = 630 \text{ m}^2$				
$9 \times 30 \times 3.50 = 945 \text{ m}^2$				
$20 \times 30 \times 3.50 = 2100 \text{ m}^2$				
$25 \times 30 \times 3.50 = 2625 \text{ m}^2$				
$3 \times 30 \times 3.50 = 315 \text{ m}^2$				
Total = $6615 \text{ m}^2$				
Acre = $\frac{6615}{10000} = 0.66 \text{ Hectre}$				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item No. 24) <del>(25)</del> <del>Plinth R.C.C.</del>					
in Deck <del>20.00</del> <del>20.00</del> - - - - -					
By, Vide TMB, P-20,					
$BH = 13.34 \text{ m}^3$					
(a) $b, 7534.35 \text{ m}^3 = b, 00,521 = w$					
Item No. 25) R.C.C. M25					
Concrete in Deck Slab - t 11					
By, Vide TMB, P-21					
$BH = 7.35 \text{ m}^3$					
(a) $b, 8708.87 \text{ m}^3 = b, 64,192 = w$					
Item No. 26) <del>(27)</del> <del>Protruding</del>					
Drawing Space - - - - -					
By, Vide TMB, P-21					
$BH = 4 \text{ m}^3$					
(a) $b, 123.76 \text{ m}^3 = b, 5341 = w$					
Item No. 27) <del>(28)</del> <del>Protruding</del>					
Drawing Space - - - - -					
By, Vide TMB, P-21					
$BH = 4 \text{ m}^3$					
(a) $b, 811.56 \text{ m}^3 = b, 3246 = w$					
$TOL = b, 105,01,665 = w$					
Add. 12% L.S.T = $b, 12,60,200 = w$					
Add. 1% L.C. = $b, 105,017 = w$					
Add. 1.41% S. fee = $b, 1,48,573 = w$					
$TOL = b, 1,20,14,955 = w$					

Continuation

C.O.

Sch. XLV-Form No. 134